

हरियाणा में कृषि मानसून

चर्चा में क्यों?

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, कृषि मानसून के कारण हरियाणा को **मानसून वर्षा पर निर्भर किसानों के लिये राहत प्रयासों** और जल की कमी का समाधान करने के उपायों पर विचार करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

मुख्य बंदि

- आँकड़ों के अनुसार, राज्य में 114.6 ममी. वर्षा के साथ औसत वर्षा में **38% की कमी** दर्ज की गई।
- **ला नीना परघटना में देरी** के कारण जून और जुलाई माह के दौरान इस क्षेत्र में मानसून की स्थिति "कृषि चरण" में थी। ला नीना एक ऐसी परघटना है जिसके फलस्वरूप **भारतीय उपमहाद्वीप में अनुकूल मानसून वर्षा होती है।**
 - अगस्त माह के अंत में या सितंबर की शुरुआत में ला नीना परघटना के संपन्न होने के साथ प्रभावित क्षेत्रों की वर्षण स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।
- **सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी (CSTEP)** थकि-टैंक के एक शोधकर्ता के अनुसार **हिंद महासागर द्वधिरुव (Indian Ocean Dipole- IOD)** के रूप में जानी जाने वाली एक अन्य जलवायवीय परघटना की स्थिति **वर्तमान में उदासीन** है। यह परघटना हिंद महासागर के जल स्तर को प्रभावित करती है।
 - एक **घनात्मक हिंद महासागर द्वधिरुव (IOD)** के फलस्वरूप मानसून के दौरान **अनुकूल वर्षा होती है।**
- मानसून के नविरतन (वापसी) के बाद उम्मीद से कम वर्षा की स्थिति में विशेषज्ञों ने संकेत दिया कि **सरकार को आकस्मिक योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता** होगी।
 - इन योजनाओं में किसानों को **अतिरिक्त सहायता** प्रदान करना, **सिंचाई परियोजनाओं के लिये जल की उपलब्धता सुनिश्चित** करना तथा अन्य **जल संरक्षण उपायों** को क्रियान्वित करना शामिल हो सकता है।

ला नीना

- स्पेनिश भाषा में ला नीना का अर्थ होता है **छोटी लड़की**। इसे कभी-कभी अल वरिज़ो, एंटी-अल नीनो या "एक शीत घटना" भी कहा जाता है।
 - ला नीना घटनाएँ **पूर्व-मध्य वषि्वतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र** में औसत समुद्री सतही तापमान से नमिन तापमान की द्योतक हैं।
 - इसे समुद्र की सतह के तापमान में कम-से-कम पाँच क्रमिक त्रैमासिक अवधि में 0.9°F से अधिक की कमी द्वारा दर्शाया जाता है।
- जब **पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र** में **जल का तापमान सामान्य की तुलना में कम हो जाता** है तो ला नीना की परघटना देखी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप **पूर्वी वषि्वतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र** में एक उच्च दाब की स्थिति उत्पन्न होती है।

हिंद महासागर द्वधिरुव (IOD)

- IOD, जिसे **भारतीय नीनो** भी कहा जाता है, **एल नीनो** के समान ही एक घटना है जो **पूर्व में इंडोनेशियाई और मलेशियाई तटरेखा तथा पश्चिम में सोमालिया के पास अफ्रीकी तटरेखा के बीच** हिंद महासागर के **अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र** में घटित होती है।
 - **अल नीनो दक्षिणी दोलन (El Nino Southern Oscillation- ENSO)** घटना की तुलना में अल नीनो एक सामान्य से अधिक गर्म चरण है, जिसके दौरान भारत सहित विश्व के कई क्षेत्रों में आमतौर पर तापमान गर्म और वर्षा सामान्य से कम होती है।
- ऐसे में भूमध्य रेखा के साथ समुद्र का एक कनिरा दूसरे की तुलना में गर्म हो जाता है।
- जब हिंद महासागर का पश्चिमी भाग, विशेषकर **सोमालिया तट** के करीब पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में **गर्म हो जाता है**, तब इसे घनात्मक IOD कहा जाता है।
- जब **पश्चिमी हिंद महासागर ठंडा होता है** तब इसे ऋणात्मक IOD कहते हैं।

